



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-28102024-258290
CG-UP-E-28102024-258290

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4325]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 28, 2024/कार्तिक 6, 1946

No. 4325]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIKA 6, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 11 सितम्बर, 2024

का.आ. 4701(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबन्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में विशेष रेल परियोजना, अलीगढ़-दाउद खां तीसरी रेल लाइन (6.9 किमी.) एवं दाउद खां में रेल फ्लाईओवर का निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन व परिचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के अन्दर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/(संयुक्त संगठन) अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो

व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन व अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उर्पयुक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अलीगढ़-दाउद खां तीसरी रेल लाइन (6.9 किमी.) एवं दाउद खां में रेल फ्लाईओवर का निर्माण परियोजना के लिए अलीगढ़ जिले के कोल तहसील में आने वाली अवसंरचना रहित या सहित भूमि का सक्षिप्त विवरण।

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे/प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल हे में
1-	कोल	चिरौली दाउद खां	70	0.0054
			69	0.0428
			68	0.0433
			86	0.0019
			92	0.0845
			91	0.0329
			90	0.0062
			94	0.0710
			95	0.0777

[फा. सं. NCR –HQ O CENG(MISC)/55/2022-O/O CE/CONSTRUCTION/NORTH/HQ NCR
(Computer No. 71372)]

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 11th September, 2024

S.O. 4701(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, **the Aligarh-Daud Khan 3rd line (6.9 km) and construction of flyover at Daud Khan** in the district of **Aligarh** in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Special Land Acquisition Officer (Joint Organization), Aligarh, Uttar Pradesh** in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be Inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely, **Aligarh-Daud Khan 3rd line (6.9 km) and construction of fly over at Daud Khan** Project under **Tehsil Koil** in **Aligarh District** in the state of Uttar Pradesh.

S/No.	Name of Tehsil	Name of village	Survey Plot No.	Acquired Area (in Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KOIL	CHIRALI DAUD KHAN	70	0.0054
			69	0.0428
			68	0.0433
			86	0.0019
			92	0.0845
			91	0.0329
			90	0.0062
			94	0.0710
			95	0.0777

[F. No. NCR –HQ O CENG(MISC)/55/2022-O/O CE/CONSTRUCTION/NORTH/HQ NCR (Computer No. 71372)]

VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer (Construction)